



प्रेस नोट थाना गजरौला

दिनांक 04.06.2021

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा कर दो अभियुक्त मय बने/अधवने अवैध शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा सुनीति महोदया के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 04.6.2021 की प्रातः करीब 06.30 बजे थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना पर जंगल सफारी होटल के सामने खण्डर में अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्त 1. मुन्शी उर्फ बाबू पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम कुटी दौलतपुर थाना हसनपुर, अमरोहा व 2. चेताराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम ढकिया खादर थाना रहरा, अमरोहा को मय भारी मात्रा में बने/अधबने अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 05 तमन्चे देशी 315 बोर, 01 तमन्चा अधबना देशी 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण रेती, धोकनी, कोयला आदि बरामद हुये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गजरौला पर मु0अ0स0 330/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त मुन्शी उर्फ बाबू एक शातिर किस्म का अपराधी जोकि पूर्व में 02 बार शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने के जूर्म में जेल जा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस मुठभेड, गैंगस्टर, हत्या आदि के करीब 06 अभियोग पंजीकृत है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मुन्शी उर्फ बाबू पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम कुटी दौलतपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. चेताराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम ढकिया खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. 05 तमन्चे देशी 315 बोर ।
2. 01 तमन्चा अधबना देशी 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 खोखा कारतूस 12 बोर ।
3. शस्त्र बनाने के उपकरण रेती, धोकनी, कोयला आदि ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुन्शी उर्फ बाबू :-

1. मु0अ0सं0 123/2009 धारा 5/25 आयुध अधि0 थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 604/2009 धारा 302 भादवि थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 650/2009 धारा 307 भादवि थाना सैदनगली जनपद अमरोहा । (पुलिस मुठभेड)
4. मु0अ0सं0 806/2009 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 132/2013 धारा 5/25 आयुध अधि0 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
6. मु0अ0सं0 330/2021 धारा 5/25 आयुध अधि0 थाना गजारौला जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चेताराम :-

1. मु0अ0सं0 330/21 धारा 5/25 आयुध अधि0 थाना गजारौला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 सतेन्द्र कुमार सिंह थाना गजारौला जनपद अमरोहा।
2. उ0नि0 रजनीश कुमार थाना गजारौला जनपद अमरोहा ।
3. कां0 646 मोहित कुमार थाना गजारौला जनपद अमरोहा ।
4. कां0 940 कृष्णवीर थाना गजारौला जनपद अमरोहा
5. कां0 1140 यशवीर थाना गजारौला जनपद अमरोहा।

